Place: Mumbai Date: October 23, 2020

### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

Stressed Assets Management Department Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002 ale of financial asset to ARCs/ BANKs/ NBFCs/ Fls hrough E-Auction under Swiss Challenge Method

Indian Overseas Bank Invites Expression o Interest from ARCs/BANKs/NBFCs/Fls for the proposed sale of NPA **M/s Varrsana Ispa** Limited with principal outstanding of Rs.147.94 crores (excluding FITL). Interested prospective bidders are requested to intimate their willingness to participate in the e-Auction scheduled or 18.11.2020 by way of an "Expression of Interest". Kindly visit Bank's Website at www.iob.in Click on link TENDERS→ Tenders → Tender information - Sale Notification dated 23.10.2020 - Sale of NPAs to ARCs etc. -Lot 1 in Q3 of FY 2020-21 for further details.

Place: Chennai Date: 23.10.2020 General Manager

**Business Standard** newspaper delivering safely to homes and offices

For details. SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

> BusinessStandard Insight Out

**VODAFONE IDEA LIMITED** 

Regd. Office: Suman Tower, Plot No. 18, Sector-11, Gandhinagar - 382 011, Gujarat CIN: L32100GJ1996PLC030976 Tei: +91-79-66714000 Fax: +91-79-23232251 Email: shs@vodafoneidea.com Website: www.vodafoneidea.com

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 29<sup>th</sup> October, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.vodafoneidea.com as also on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited – www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited – www.nseindia.com.

For Vodafone Idea Limited

Pankaj Kapdeo Company Secretary



**NOTICE** 

Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ("SEBI LODR"), Notice is hereby given that a Meeting of the Board o Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 3, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company, both on Standalone and Consolidated basis, for the Quarter and Nine Months ended September 30, 2020.

Further, in accordance with Regulation 46 of SEBI LODR, the details of aforesaid Meeting are available on website of the Company .e. www.varunpepsi.com and also on website of Stock Exchanges e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Varun Beverages Limited Ravi Batra Place: Gurugram Date: October 23, 2020 (Chief Risk Officer & Group Company Secretary)

Mahindra III Manulife

MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.) Corporate Identity Number: U65900MH2013PTC244758 Registered Office: "A"Wing, 4th Floor, Mahindra Towers, Dr. G.M Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai 400 018 Corporate Office: 1st Floor, Sadhana House, 570, P.B Marg, Worli, Mumbai - 400 018

Tel: 1800 4196244: website: www.mahindramanulife.com: vestors@mahindra.com

**NOTICE NO. 42/2020** 

Notice is hereby given to the Investor(s)/Unit holder(s) of the scheme(s) of Mahindra Manulife Mutual Fund ("the Fund") that in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012, the unaudited half yearly financial results of all the scheme(s) of the Fund for the period ended September 30, 2020, is hosted on the Fund's website www.mahindramanulife.com in a user - friendly and downloadable format. Investor(s)/ Unit holder(s) are requested to take a note of the same.

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited

(Formerly known as Mahindra Asset Management Company Pyt. Ltd.)

Place: Mumbai

Date: October 23, 2020

**Authorised Signatory** 

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

#### FORM G -**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS

1 Name of the Corporate Debtor ZICOM SAAS PRIVATE LIMITED 2 Date of incorporation of corporate debtor 23/02/2011 3 Authority under which corporate Registrar of Companies - Mumbai debtor is incorporated / registered

Corporate identity number / limited liability identification number of U74120MH2011PTC213916 corporate debtor

Address of the registered office 501, Silver Metropolis, Western and principal office (if any) of Express Highway, Goregaon (East) corporate debtor Mumbai MH 400063 Insolvency commencement date 18.03.2020 (Order received on 11.08.2020) of the corporate debtor

Date of invitation of expression of interest

Eligibility for resolution applicants http://www.insolvencyandbankruptcy.ir under section 25(2)(h) of the Code is available at:

Norms of ineligibility applicable http://www.insolvencyandbankruptcy.in under section 29A are available at:

Last date for receipt of expression 09.11.2020 of interest

Date of issue of provisional list of 19.11.2020 prospective resolution applicants Last date for submission of 24.11.2020 objections to provisional list Date of issue of final list of prospective resolution applicants

Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants

Manner of obtaining request for The Resolution professional will share resolution plan, evaluation matrix, the request for resolution plan/ evaluaand tion Matrix/ Information Memorandum information memorandum in the electronic form after verification of KYC, capacity to invest, capability to further information manage and eligibility under section 29A of IBC. 2016 and pre-qualification

criteria, if any approved by COC. 6 Last date for submission of resolution plans 04.01.2021 Manner of submitting resolution To be decided by committee of creditors plans to resolution professional

Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating To be decided Authority for approval

Name and registration number of the resolution professional IP Registration No.: IBBI/IPA-002/IP N00360/2017-2018/11055

Name: Santanu T Ray

Address: 301, A Wing, B S E L Tech Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board Park, Sector 30 A, Opposite Vash Railway Station, Vashi, Thane, Nav

santanutray@aaainsolvency.com Address and email to be used fo correspondence with the resolution professional 301, A Wing, B S E L Tech Park, Secto 30 A, Opposite Vashi Railway Station Vashi. Thane .Navi Mumbai

Mumbai, Maharashtra -400705

Maharashtra -400705 zicomsaas@aaainsolvency.com
purple of the properties of the proper 23 Date of publication of Form G 24.10.2020

Date - 24.10.2020 Santanu T Ray Resolution Professiona Place - Mumbai IBBI/IPA-002/IP-N00360/2017-2018/1105 301, A Wing, B S E L Tech Park, Sector 30 A, Opposite Vashi Railway Station, Vashi, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra ,40070 For Zicom Saas Private Limite

#### **CONTROL PRINT LIMITED** CONTROL CIN: L22219MH1991PLC059800

PRINT .

Regd. Office: C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400 059. W: www.controlprint.com | E-mail: companysecretary@controlprint.com | Tel: +91 22 28599065/ 66938900 EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

	Rs. In Lakhs except EPS)													
	Standalone Standalone							Consolidated						
Sr.	Particulars	Qı	Quarter Ended Half Year Ended Year En			Year Ended	nded Quarter Ended			Half Y	Year Ended			
No.	T di diodidio	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited			Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (Net)	5,308.89	3,513.58	5,044.19	8,822.47	10,196.26	19,606.14	5,308.89	3,513.58	5,044.19	8,822.47	10,196.26	19606.14	
2	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax													
	(Before Exceptional Items)	896.97	603.13	1,045.97	1,500.10	2,207.66	3,735.08	891.20	595.54	1,040.36	1,486.74	2,196.44	3,705.04	
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax													
	(After Exceptional Items)	913.81	391.77	892.97	1,305.57	1,866.98	3,305.73	908.03	384.18	887.36	1,292.21	1,855.76	3,275.69	
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax													
	(After Exceptional Items)	748.54	340.01	729.64	1,088.55	1,490.05	2,663.88	742.77	332.42	724.03	1,075.19	1,478.83	2,633.84	
5	Total Comprehensive Income for the period													
	[Comprising Profit /(Loss) for the period and Other													
	Comprehensive Income(after tax)]	1,450.46	755.27	639.64	2,205.73	1,400.05	2,274.43	1,444.69	747.68	634.03	2,192.37	1,388.83	2,244.39	
6	Equity Share Capital	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as													
	shown in the Balance Sheet of previous year)						17,101.30						16814.90	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)*													
	Basic:	4.58*	2.08*	4.47*	6.67*	9.12*	16.31	4.55*	2.04*	4.43*	6.58*	9.05*	16.13	
	Diluted :	4.58*	2.08*	4.47*	6.67*	9.12*	16.31	4.55*	2.04*	4.43*	6.58*	9.05*	16.13	

## \*Not annualised

The above is an extract of the financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results are available on the website of the Company at www.controlprint.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India

The above financial results have been reviewd by the Audit committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on October 23, 2020.

This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For & on behalf of Board of Directors o Control Print Limited Basant Kabra

Managing Director DIN 00176807

Place : Mumbai Date : October 23, 2020

# Coforge Coforge Limited (erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019.

**Ph**: 91 (11) 41029297 **Fax**: 91 (11) 26414900

Email: investors@coforgetech.com Website: https://www.coforgetech.com

## Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2020

			Standalone		Consolidated				
	Particulars	3 Months ended	Corresponding Quarter ended	Year to date figures for the	3 Months ended	Corresponding Quarter ended	Year to date figures for the		
				current period ended			current period ended		
		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020		
1.	Total income from operations	6,084	5,441	11,849	11,537	10,385	22,107		
2.	Net profit for the period (before Tax & Exceptional items)	538	760	1,768	1,525	1,527	2,794		
3.	Net profit for the period before tax (after Exceptional items)	538	760	1,768	1,525	1,527	2,614		
4.	Net profit for the period after tax	446	584	1,530	1,222	1,251	2,051		
5.	Total comprehensive Income for the period	579	498	1,796	1,312	1,220	2,366		
6.	Paid up equity share capital	606	624	606	606	624	606		
7.	Other Equity	=	-	-	-	-	-		
8.	Earnings Per Share (after extraordinary and exceptional items) of face value of Rs.10/- each) (not annualized):								
	1. Basic	7.36	9.42	24.91	19.93	19.25	32.66		
	2. Diluted	7.25	9.35	24.58	19.61	19.12	32.23		

### Notes:-

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.nseindia.com, www.bseindia.com and the listed entity http://www.coforgetech.com.
- ii) The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee at the meeting held on October 21, 2020 and approved by the Board of Directors at their meeting held on October 22, 2020. iii) As at June 30, 2020, the Group held 80% membership interest in RuleTek INC ("RuleTek"). Consequent to the Membership Interest Purchase Agreement with members of RuleTek, during the current quarter, the Group acquired incremental 20% interest for consideration of Rs. 722 Mn resulting in RuleTek becoming a
- wholly owned subsidiary as at September 30, 2020. iv) On June 14, 2020, the Shareholders of the Company have approved the proposed change in name of the Company from "NIIT Technologies Limited" to
- "Coforge Limited". The name of the Company has been changed from "NIIT Technologies Limited" to "Coforge Limited" w.e.f. August 3, 2020 vide certificate of incorporation pursuant to change of name issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. v) The Code on Social Security 2020 (Code), which received the Presidential Assent on September 28, 2020, subsumes nine laws relating to social security
  - retirement and employee benefits, including the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Payment of Gratuity Act, 1972 The effective date of the Code is yet to be notified. The Group will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record related impact thereon.

By order of the Board For Coforge Limited (Erstwhile NIIT Technologies Limited)

Huhtamaki-PPL

**Huhtamaki PPL Limited** 

Regd Office: 12A-06, B-Wing, 13th Floor, Parinee Crescenzo, C-38/39, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

CIN: L21011MH1950FLC145537, Phone No.: (022) 2653 1320, Fax No.: (022) 2653 1310

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR** THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2020

				₹ in Million
		Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
Sr. No.	Particulars	30-Sep-20	30-Sep-20	30-Sep-19
IVO.		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	6,859.0	19,049.9	6,501.4
2	Profit before Tax	496.1	1,098.3	391.7
3	Profit for the period after Tax	368.8	909.1	319.0
4	Total Comprehensive Income for the period	368.8	898.8	319.0
5	Equity Share Capital	151.1	151.1	151.1
6	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of previous year			6,822.4
7	Earnings Per Share ( of ₹2/- each) (not annualised)			
	Basic & Diluted EPS	4.88	12.04	4.22

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on

October 23,2020 and have been subjected to Limited review by the Statutory auditors. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results is

For Huhtamaki PPL Ltd.

Mumbai, October 23, 2020 Visit us at our website: www.ppl.huhtamaki.com

available on the websites of the Stock Exchange and the Company.

Dr. Arup Basu **Executive Director** 

mycem

#### HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301

Regd. Office: 9th Floor, Infinity Tower - C, DLF Cyber City Phase II, Gurugram, Haryana - 122 002 Ph.: 0124 - 4503700, Fax: 0124 - 4147698 Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and

	Six months Ended 30.09.2020										
SI. No.	Particulars		3 months ended 30.06.2020	Corresponding 3 months ended 30.09.2019	period ended 30.09.2020	6 months period ended 30.09.2019	(₹ in Million) Previous year ended 31.03.2020				
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
1.	Revenue from operations										
	a. Sales/Income from operations	5,126.9	4,062.7	5,195.1	9,189.6	11,019.5	21,576.4				
	b. Other operating revenue	10.6	14.3	26.5	24.9	94.4	119.8				
	Total Revenue from operations	5,137.5	4,077.0	5,221.6	9,214.5	11,113.9	21,696.2				
2.	Other income	101.3	97.8	124.6	199.1	242.9	527.3				
3.	Total income (1+2)	5,238.8	4,174.8	5,346.2	9,413.6	11,356.8	22,223.5				
4.	Expenses										
	a. Cost of materials consumed	874.1	704.3	901.5	1,578.4	1,958.0	3,835.9				
	b. Changes in inventories of finished goods and work-in-progress	20.2	22.9	108.3	43.1	181.3	50.6				
	c. Employee benefits expense	308.7	269.1	310.5	577.8	625.0	1,311.9				
	d. Finance costs	133.3	159.9	188.2	293.2	386.4	738.5				
	e. Depreciation and amortisation expense	281.0	276.3	264.7	557.3	543.3	1,086.1				
	f. Power and fuel	1,122.3	836.5	1,144.9	1,958.8	2,360.1	4,736.0				
	g. Freight and forwarding expense	644.6	551.9	656.8	1,196.5	1,453.7	2,879.0				
	h. Other expenses	908.1	609.0	871.5	1,517.1	1,731.1	3,604.9				
	Total expenses (a to h)	4,292.3	3,429.9	4,446.4	7,722.2	9,238.9	18,242.9				
5.	Profit before exceptional items & tax (3-4)	946.5	744.9	899.8	1,691.4	2,117.9	3,980.6				
6.	Exceptional items	-	-	-	-	-	-				
7.	Profit/(Loss) before tax (5-6)	946.5	744.9	899.8	1,691.4	2,117.9	3,980.6				
8.	Tax expense										
	Current tax	165.7	130.4	107.8	296.1	370.6	691.7				
	Deferred tax	156.8	125.1	210.5	281.9	375.5	608.3				
9.	Net Profit/(Loss) for the period (7-8)	624.0	489.4	581.5	1,113.4	1,371.8	2,680.6				
10.	Other comprehensive income										
	i Items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	-	-	-	-	(25.7)				
	ii Income tax relating to items that will not be	-	-	-	-	-	9.0				
	reclassified to Profit & Loss										
	Total Other comprehensive income (net of tax)	-	-	-	-	-	(16.7)				
	Total Comprehensive Income after tax (9+10)	624.0	489.4	581.5	1,113.4	1,371.8	2,663.9				
12.	Paid-up equity share capital	2,266.2	2,266.2	2,266.2	2,266.2	2,266.2	2,266.2				
	(Face Value is 10 per share)										
	Other Equity	-	-	-	-	-	10,880.2				
14.	Earnings per share of ₹10 each - Not annualised										
	(a) Basic (in ₹)	2.75	2.16	2.57	4.91	6.05	11.83				
1	(b) Diluted (in ₹)	2.75	2.16	2.57	4.91	6.05	11.83				
	Debt Equity Ratio	-	-	-	0.32	0.43	0.31				
	Debt Service Coverage Ratio	-	-	-	1.75	2.02	3.36				
17	Interest Service Coverage Ratio		-	-	12.74	11.76	12.09				
1	Statement of Access and Liabilities			Statement	of Cook I	Tarre					

17	Interest Service Coverage Ratio			-	-	-	12.74	11.76	12.09
	Statement of Assets and Li					Statement	of Cash Flo		·
-	(₹ in N			-	D-di-d-				in Million)
SI.	Particulars	30 Sept	31 March		Particulars			6 months po	
No.		2020 Unaudited	2020 Audited	No	-				. 30 Sept.
I.	Assets	Unaudited	Audited					2020	2019 Unaudited
1.	Non-current assets				0		41141	Unaudited	Unaudited
١.	a) Property, plant and equipment	16,343.1	16,808.7	Α		Cash flow from operating activities		4 004	
	b) Right of use of asset	121.5	119.3		Profit before			1,691.4	2,117.9
	c) Capital work-in-progress	198.8	159.9			ljustment to reco	ncile profit		
	d) Intangible assets	2.0	2.3		before tax to	net cash flows:			
	e) Financial assets				Depreciation	and amortization	expense	557.3	543.3
	(I) Security deposits	287.7	287.7		Property, plan	nt and equipment	written off	0.1	1 0.6
	f) Other non-current assets	286.6			Unrealized fo	reign exchange lo	oss/ (gain)	5.7	7 (0.8)
	(A)	17.239.7	17,687.0			ces written off	,oo, (gairi)	0	- 0.1
2.	Current assets	,	,			bilities no longer	roquirod	(5.4)	
	a) Inventories	1,390.9	1,457.6			ibilities no longer	required	(3.4)	(3.1)
	b) Financial assets	'	'		written back			/70.0	(70.0)
	(i) Security deposits	136.0	138.2		Government	•		(72.6)	
	(ii) Trade receivables	309.7	256.7		Interest expe			276.8	
	(iii) Cash and bank balances	5,720.6	4,697.4		Interest incon	ne		(120.5)	(160.8)
	(iv) Bank Balances other than Cash	16.5	8.8		Operating pr	rofit before work	ing capital	2,332.8	2,793.8
	and cash equivalents				changes Mo	vements in work	ing capital :		
	(v) Other financial assets	668.7	670.9		Increase/ (de	crease) in trade p	avables and	570.7	(289.0)
	c) Other current assets	3,111.9			other payable	, ,	.,		(,
		11,354.3				ecrease) in provisi	ione and aratuity	57.7	7 28.0
	Total assets (C)=(A+B)	28,594.0	27,928.3		,	ncrease) in trade		(53.0)	
II.	Equity and liabilities				,	,			
1.	Equity				,	ncrease) in invent		66.7	
	a) Equity share capital	2,266.2			,	ncrease) in other	current and	(92.0)	(19.2)
	b) Other equity	10,633.9			non-current a				
_	(D)	12,900.1	13,146.4			ited from operati		2,882.9	1 "
2.	Non-current liabilities a) Financial liabilities				Direct taxes p	oaid (net of refund	ls)	(282.3)	(391.6)
		2.872.7	2,800.6		Net cash flow	w from operating	activities (A)	2,600.6	2,419.3
	(i) Borrowings (ii) Other financial liabilities	40.1	39.7	В	Cash flows f	rom investing ad	ctivities		
	b) Lease Liability	70.6	76.7		Purchase of r	property, plant and	d equipment	(133.0	(109.0)
	c) Provisions	155.8	167.2			ital work in progre		(	(,
	d) Government grants	432.0	504.7		capital advan		ioo ana		
	e) Deferred tax liabilities (net)	2,184.5			1 '	ther bank balance		(7.7)	(3.7)
	(E)	5.755.7	5,491.5				15		
3.	Current liabilities	0,100.1	0,401.0	_	Interest recei			122.7	
٠.	a) Financial liabilities					w from/(used) in	investing	(18.0)	) 40.5
	(i) Trade payables				activities (B)				
	- Total outstanding dues of micro	1.7	4.2	C	Cash flows f	rom financing a	ctivities		
	enterprises and small enterprises				Dividend Paid	t		(1,352.0)	(676.1)
	- Total outstanding dues of creditors	2,918.9	2,580.0		Lease repayr	ment		(36.9)	(41.4)
	other than micro enterprises and	_,	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Interest paid			(152.0)	
	small enterprises					w used in financ	ing activities @	(1,540.9)	
	(ii) Other financial liabilities	3,303.4	3,270.2	$\vdash$		/ (decrease) in c		1.041.7	, , ,
	b) Other current liabilities	827.7	618.7				asii allu casii	1,041.7	1,409.7
	c) Government grants	145.4	145.3		equivalents				
	d) Provisions	2,741.1	2,672.0			sh equivalents at t	the beginning	4,678.9	3,370.7
	(F)	9,938.2	9,290.4		of the year#				
	Total liabilities (G)=(E+F)	15,693.9	14,781.9		Cash & cash	equivalents at the	e end of the peri	od 5,720.6	4,860.4
	Total equity and liabilities (H)=(D+G)			# C	ash and Cash	equivalent is net	of book overdraf	t.	
				_					

Notes: (1) The Company operates in a single segment i.e. manufacture and sale of Cement

(2) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company a its meeting held on 23 October 2020.

(3) "Ratios have been computed as follows:-Debt Equity Ratio = Long term debt/ Equity

Place: Gurugram Date : 23 October, 2020

 $Debt \, Service \, Coverage \, Ratio \, = \, Earnings \, before \, Depreciation, \, Finance \, cost \, and \, Tax/ \, (Interest \, on \, long \, term \, debt \, + \, Principal \, debt \, + \, Principal$ 

repayment within next 12 months) Interest Service Coverage Ratio = Earnings before Depreciation, Finance cost and Tax/ Interest on long term debt.

Debt comprises long term borrowings and current maturities of long term borrowings (4) The Company is taking all possible steps to mitigate the effect of COVID-19 on its business and operations to the extenpossible and has considered all possible effects from COVID-19 in the preparation of these financial results. The management has also evaluated the possible impact of the pandemic on the business operations and based on its

assessment of the current Indicators of the future economic conditions, it is expected that the carrying amount of assets will (5) Figures of the previous year / periods have been reclassified / regrouped / restated, wherever necessary.

> For and on behalf of the Board of Directors (Jamshed Naval Cooper) Managing Director DIN: 01527371

Date : October 22, 2020 Place: New Jersey, USA

Sudhir Singh **CEO & Executive Director** 

DIN: 07080613



Pursuant to the provisions of  $\frac{\overline{\text{Conjust}}}{\text{Regulation}}$  47 read with Regulation 33 o SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("SEBI LODR"), Notice is hereby given that a Meeting of the Board o Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday November 3, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudite Financial Results of the Company, both on Standalone and Consolidate basis, for the Quarter and Nine Months ended September 30, 2020.

Further, in accordance with Regulation 46 of SEBI LODR, the details of aforesaid Meeting are available on website of the Company i.e. www.varunpepsi.com and also on website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Varun Beverages Limited

Place: Gurugran Date: October 23, 2020

Ravi Batra (Chief Risk Officer & Group Company Secretary)



एअर इंडिया लिमिटेड का संपत्ति एवं सुविधा विभाग, उ.क्षे, विख्यात ठेकेदारों से संबन्धित क्षेत्र में पूर्व योग्यता हेतु निम्नलिखित कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित

क्रम सं.	निविदा संख्या और तिथि	विवरण	अनुमानित लागत	देय तिथि
1.	पीएफडी/एनआर/ईएम/ 2020/04 दिनांक 01-10-2020	नई दिल्ली स्थित एअर इंडिया के परिसरों में आवधिक विद्युत अनुरक्षण कार्य	30.00 लाख रुपए	दिसम्बर 2020

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.airindia.in देखें

मार्वजनिक सूचना माननीय राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच

2020 की आईए नं. 226 तथा 2020 के आईए नं. 273, कंपनी याचिका (IB) NO. 73/CHD/CHD/2018 (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 19 (2) व धारा 60(5) के तहत

. कुमारं बस्सी, रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल, लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लिमिटेड ......आवेदव बी.एस. उप्पल व अन्य और के मामले में : आईसीआईसीआई बैंक वित्तीय लेनदा बनाम आइसाआइसाआइ जन्म लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लिमिटेड आवेदन की सूचना

1. श्री विजय लक्ष्मी सूद निवासी :188ए, रानी का बाग, अमृतसर, पंजाब-143001 ( उत्तरदाता नं. 2 )

2. श्री विजयकांत मिश्रा जी/71, भूतल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ( **उत्तरदाता नं. 3** )

मकान नं. 2, कंट्री होम वेस्ट, लुधियाना पंजाब ( उत्तरदाता नं. 4 )

अविदक्त श्री कुलदीप कुमार बस्सी, रॅजल्यूशन प्रोफेशनल, लक्ष्मी एनजी एंड फूड्स लिमिटेड ने माननी एन.सी.एल.टी. के समक्ष दो आवेदन दायर किए है; 2020 का आईए नं. 226 तथा 2020 का आईए नं. 273 तसमें उत्तरदाता नं. 2 से 4 एक पार्टी है। 2020 का आईए नं. 226 इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को ( 2016 ) की धारा 19 के तहत दायर किया गया है. जो लक्ष्मी एनर्जी एंड फड़स लिमिटेड ( **कॉर्पोरे**ट **नवार )** के पूर्व प्रंबधन से सहयोग और जानकारी मांगता है। 2020 का आईए कोडे 273 धारा 60(5) व तहत दायर किया गया है जो स्थानीय प्रशासन से अपने कतव्यों का पालन करने के लिए सहायता मांग रहा है अथार्त कॉर्पोरेट देनदार के खमन्न, पंजाब स्थित प्लांट पर कब्जा करने के लिए।

चँकी आवेदक 2020 के आईए नं. 226 और 2020 के आईए नं. 273 के उत्तरदाताओं नं. 2 से के अपर्याप्त पते और आइटम वितरण को असर्तृष्टि के कारण माननीय एन.सी.एल.टी. 9 अक्टूबर 2020 को आवेदक को आगे जारी आदेश में निर्देश दिया है कि सेवा का एक प्रतिस्थापि मोड अपनाए और प्रकाशन के माध्यम से उत्तरदाताओं नं. 2 से 4 को सुनवाई की सूचना दें। माननीय एन.सी.एल.टी. के समक्ष 2020 की आईए न. 226 और 2020 की आईए न. 273 को अगर

सुनवाई के लिए 23 नवम्बर 2020 को सूचीबद्ध किया गया है। उत्तरदाता नं. 2 से 4 इन आईए जबाव दाखिल करना चाहते है और सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या अपने काउसिल के माध्यम उपस्थित होना चाहते हैं तो उत्तरदाता नं. 2 से 4 याचिका की प्रति और किसी भी अन्य सहायता व लेए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते है।

याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तरदाता नं. 2 से 4 को उनके विशिष्ट अनुरोध पर प्रस्तुः कुलदीप कुमार बस्सी रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल, लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लिमिटेड IBBI/IPA-001/IP-P00280/2017-18/10524 दिनांक : 24.10.20**2**0

Public Notice for Surrender of Debentu

Irustee License
M/s. Orbis Capital Limited
Notice is hereby given to general public by M/s.
Orbis Capital Limited having its registered office
at 4A, Ocus Technopolis, Sector – 54, Golf Club Road, Gurugram - 122002 that we are in the process of applying to Securities and Exchange Board of India (SEBI) for surrender of ou registration vide no. IND000000587 dated December 05, 2018 as Debenture Trustee All our current assignments as a Debenture Trustee have been either duly terminated or transferred to another registered Debenture Trustee named M/s Orbis Trusteeship Services Private Limited having

> Compliance Officer Orbis Capital Limited

\*Note: Pursuant to Regional Director [RD] order dated April 27 2020, Orbis Capital Limited has been merged with Orbis Financial Corporation Limited. अपोलो पाइप्स लिमिटेड CIN: L65999DL1985PLC022723

विकास मार्ग, दिल्ली-110092 **कॉरपोरेट कार्यालय:** प्लॉट नं. ए-140 सेक्टर-136, नोएडा-201301 दरभाष सं .: 0120 6587777

**गंजीकत कार्यालय** : 37. हरगोविंद एनक्लेव

मेलः compliance@apollopipes.com वेबसाइटः www.apollopipes.com सूचना

. मेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताए विनियमन, 2015 (एलओडीआर) के विनियमन 29 b अनुपालन के तहत एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यवसायिक पहलुओं पर विचार करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बहस्पतिवार 29 अक्टूबर, 2020 को आयोजित होगी

. 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त द्वितीय तिमाही तथा छमाड़ी के लिए कंपनी के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने के लिए

बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य किर्स भी मामले पर विचार करने के लिए। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि सेबी (घनिष्ट व्यक्तियों की टेडिंग पर निषेध) विनियमन 2015 वे अनुसार कंपनी के मनोनित व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण . गरानी एवं सौदा की रिपोर्ट हेतु आंतरिक प्रक्रियाओ भा आचार संदिता के अनुसार कंपनी के दक्तिरी शेयरों के लेनदेन हेतु "ट्रेडिंग विंडो" 01 अक्टूबर 2020 से बंद कर दी गई है एवं 01 नवम्बर 2020 को पुनः खोली जाएगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते अपोलो पाइप्स लिमिटेड हस्ता/

अंकित शर्मा तारीखः 23 अक्टूबर, 2020 कंपनी सचिव

#### Dixon **DIXON TECHNOLOGIES** (INDIA) LIMITED

Registered Office: B-14 & 15, Phase-II Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201305 E-Mail: investorrelations@dixoninfo.com, Website: www.dixoninfo.com Phone: +91-120-4737200, Fax: 0120-4737263

ursuant to Regulation 47 read with Regu 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 30th October, 2020, to inter-alia, consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results

(provisional) for the Quarter and Half year ended

as on 30th September, 2020 along with the

ent of Assets and Liabilities & Statemen

of Cash Flows. Further, in accordance to the Reg. 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the aforesaid meeting are available on the website of the Company i.e. www.dixoninfo.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited(www.nseindia.com)

For Dixon Technologies (India) Limited Ashish Kumar Gr. Company Secretary & Compliance Officer

यस ग्लोबल टावर, ए-3,4, 5, सेक्टर-125, नोएंडा-201301 फोन: +91 120 3391000

RELIGARE | HOME

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13 (2) के अधीन सूचना हम रेलिगेयर हाउसिंग डेपलपमेंट फाइनेस कॉपरिशन लि. ने अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13 (2) के अधीन डिमांड नोटिस जारी किया है। इस विषयवस्तु का तथ्य यह है कि आपने मूलधन ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। बकाया राशि निम्नवत है।

सह–उधारकतो का नाम	सं.	सूचना की तिथि	प्राप्त हुई	सूचना के अनुसार डिमांड राशि	पता
1. संतोष शर्मा पुत्र महिन्दर शर्मा 2. रंजिता देवी पत्नी संतोष शर्मा	XMHDOUN 00053877 (आचेदन आईडी 613889)	17.08.20	₹. 10,00,000/−	₹.	पता 1: एच. नं. 45, नया गाँव, ग्राम भोंडशी,तहसील, सोहना, गुड़गाँव, हरियाणा– 122001 पता 2: खेबत/खाता सं. 700 मिन. भाग बकदर रकवा, ग्राम भोंडशी,तहसील, सोहना, गुड़गाँव–122001 पता 3: शुभम इंटीरियर, मार्फत संतोष शर्मा, इसलामपुर ग्राम–सोहना रोड, जेएमडी गार्डन के पास, गुड़गाँव, हरियाणा–122001

हुई संपत्ति अनुसूची-।। क. निम्न के सभी एवं अंश-प्रॉपर्टी वहन खेवत/खाता स 700 मिन, मस्तिल सं-57, किला सं-4/2 (7-8), 5 (5-8), 6(7 10), 7(8-4), 14(6-5), 15(8-0), 16(8-0), 17(8-0) 8(7-16), 25(8-0), मुस्तिल सं-58, किला सं-1 (7-16), (8-0), 10(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 19(8-0), 20(8-0)), 21(8-0), 22(8-0), मुस्तिल सं-81, किला सं-1 (8-0) 2 (8-0) किता 21 रकबा-162 कराल 7 मरला आराजी के /> 3247 भाग बकदर रकबा, ग्राम- भोंडशी, तहसील-सोहना, जिला ਸਵੰਸੰਕ=122001 (ਸਾਧੂ 110 0 ਰਹੀ ਗਵੇ)।

**ख**. निम्न के सभी एवं अंश-प्रॉपर्टी वहन खेवत/खाता सं. 700 मि किता 21, क्षेत्रफल 162 कनाल, 7 मरला 2/3247 पार्ट, एरिया ( कनाल 2 मरला अर्थात 68 वर्ग यार्ड जो मौजा भोंडशी, तहसील–सोहना जिला–गुड़गाँव–122001 में स्थित है। माप एवं सीमाएँ हैं– पूर्व : 39.6 फीट एवं दिगर मालिक, पश्चिम:39.6 फीट एवं दिगर मालिक, उत्तर 5.5 फीट एवं 20 फीट चौडी आम सडक और दक्षिण: 15.5 फीट खं दिगर मालिक

आगे कारण सहित, हम् विश्वास करते हैं कि आप डिमांड नोटिस की सेवा से टाल-मटोल कर रहे हैं। अतएव, इस डिमांड नोटिस के प्रकाशन से आपको एतदद्वार आग कारण साहत, हम विश्वास करते हैं कि आप डिमार्ड नात्वर की सवा से टॉल-म्टॉल कर रहे हैं अतर्पय, इस डिमार्ड नात्वर के अकाश से आपका आहूत किया जाता है कि इस हिमार्ड नोटिस की स्वचान ति को अचित्र के अंदर रिलाग्यर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉपीरेशन लि. को उपर्युक्त गाँग इसके आगे के ब्याज, लागत, प्रासींगिक ब्यव, प्रभार आदि के साथ भुगतान करें अन्यथा रिलाग्यर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉपीरेशन लि. की ओर से उधारकर्ता/ओं की इस प्रतिभृत संपत्तियों को कब्जे में लेने समेत सभी या किसी एक या एक से अधिक प्रतिभृत संपत्ति के किन्द्र उक्त अधिनयम की धारा 13 (4) की धारा 13 (4) की अधीन उपर्युक्त प्रतिभृत संपत्तियों को किसी एक प्रावधान के तहत आवश्यक कद्म उठाया जाएगा। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनयम की धारा 13 (13) के अधीन उपर्युक्त प्रतिभृत संपत्तियों को बिक्री/लीज या किसी अन्य माध्यम से स्थानांतरित करने से वंचित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि आगे कोई डिमांड नोटिस जारी नहीं की जाएगी।

मेसर्स रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

#### **GENUS POWER INFRASTRUCTURES LIMITED** Genus

Regd. Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh
Corporate Office: SPL-3, RIICO Industrial Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022, Rajasthan
Ph.:0141-7102400/500, Fax: 0141-2770319, E-mail: cs@genus.in, Website: www.genuspower.com, CIN: L51909UP1992PLC051997

		S	tandalon	е	Co	nsolidate	d
S. No	Particulars	Sepember	Half-Year Ended Sepember 30, 2020		Quarter Ended Sepember 30, 2020	Half-Year Ended Sepember 30, 2020	Quarter Ended Sepember 30, 2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations	17194.29	26469.41	27929.10	16623.76	27348.97	27843.67
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2962.94	2447.34	3324.90	2392.41	3326.90	3890.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2962.94	2447.34	3324.90	2392.41	3326.90	3890.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	676.69	341.46	2425.09	89.49	1171.70	2950.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	672.78	364.59	2431.04	85.58	1194.83	2956.14
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2573.59	2573.59	2573.59	2573.59	2573.59	2573.59
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (Face value of Re.1/- each) (for						
	continuing and discontinued operations) - (not annualised) (Amount in Rs.)						
	Basic:	0.26	0.13	0.95	0.04	0.51	1.28
	Diluted:	0.26	0.13	0.95	0.04	0.51	1.28

Place: Jaipur

1 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended The full format of the financial results are available on Company's website at www.genuspower.com and the Stock Exchanges website (www.nseindia.com and www.bseindia.com).

2 The Board has reviewed the total order book position of worth Rs. 1067.71 crores (net of tax)

Date : October 23, 2020

# विवेकपूर्ण तरीके से दरों में होगी कटौती किया जा सके। इस बीच यह मौद्रिक नीति समिति की बैठक में किसने क्या कहा. सुनिश्चित करना होगा कि महंगाई

मुंबई, 23 अक्टूबर

**■**रतीय रिजर्व बैंक की गठित नव सदस्यीय नीति समिति (एमपीसी) को भविष्य में दर में कटौती करने की पर्याप्त गुंजाइश नजर आ रही है। समिति का कहना है कि यदि महंगाई अनुमान के मुताबिक रहती है तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन वृद्धि में वापसी करने के लिए इस गुंजाइश का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी तीन दिवसीय बैठक के ब्योरे से सामने

एमपीसी ने विगत में की गई दर कटौती को उपयुक्त तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि वित्तीय स्थिति को संभाला

तीन दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक का समापन 9 अक्टूबर को हआ था। रिजर्व बैंक ने कहा. 'एमपीसी ने जितना जरूरी हो उतने समय तक समझौतापरक उपाय को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक यह कदम कम से कम मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष तक जारी रखेगा ताकि टिकाऊ आधार पर आर्थिक वृद्धि को वापस पाया जा सके और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को समाप्त को काब में रखते हुए उसे लक्ष्य

बैठक के ब्योरे से पता चलता है कि एमपीसी के नव नियुक्त बाहरी सदस्य जयंत आर. वर्मा ने नीति के वक्तव्य में शब्दों के चयन पर समिति के बाकी सदस्यों से अलग राय रखी थी न कि नीति की कदम को लेकर। इससे इस चर्चा पर भी विराम लग गया है कि वह समिति के कदम में बदलाव चाहते थे।

वर्मा नीति के वक्तव्य में 'निर्णय लिया गया' की जगह 'उम्मीद जताई गई' शब्द को प्रमखता देना चाहते थे। उन्होंने नीति दर को मौजदा 4 फीसदी पर बनाए रखने का समर्थन किया। उन्होंने समझौतापरक कदम और तरलता समर्थन को भी सही ठहराया। इन उपायों से अल्पावधि की दरें रीपो दर की बजाय रिवर्स रीपो दर की ओर मुड़ती हैं।

संशोधित ब्योरे से पता चलता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के प्रोफेसर को स्वयं इस बात को लेकर द्विधा थी कि कहीं वे अति प्रतिक्रियात्मक व्यवहार तो नहीं कर रहे और बेवजह का असमंजस तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन, उन्होंने स्पष्ट किया कि एमपीसी के समझौतापरक कदम की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए शब्दों का चयन जरूरी था. जिसे हाल में

सीमा के भीतर रखा जाए।' महंगाई दर में बढ़ोतरी

वाली अर्थव्यवस्थाओं के महंगाई लॉकडाउन की तुलना में कम रही है। शक्तिकांत दास 

घटने और महंगाई का दो प्रमुख लक्ष्य अर्थव्यवस्था की टिकाऊ

हाल के समय में भारत में

अन्य प्रमुख उभरते बाजार अनुभव के विपरीत है, जहां

उत्पादन में वृद्धि तेजी से दबाव बने रहने के मौजूदा मोड़ पर मौद्रिक नीति के रिकवरी बनाए रखना और महंगाई दर कम करना है।

शशांक भिडे बाहरी सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक

थोड़ा धक्का लगा।

आगे का दिशानिर्देश आया तो मैंने

अगर एनएसओ के दूसरी तिमाही के अनंतिम अनुमान इन भविष्यवाणियों के अनुरूप रहते हैं तो भारत साल की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार तकनीकी मंदी में प्रवेश कर गया है।

माइकल पात्रा डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

सामान्य समय में ब्याज दरें कम होने पर मांग ज्यादा होती है, लेकिन संकट के दौर में ज्यादा नकदी और कम ब्याज दरों के माध्यम से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करना कठिन है।

आशिमा गोयल बाहरी सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिति में सुधार और वृद्धि को समर्थन देने के लिए पूरक कार्रवाइयों की जरूरत होगी।

मृदुल के सागर कार्यकारी निदेशक, रिजर्व बैंक

मेरा दृढ़ विचार है कि अगर एमपीसी के कहे के मुताबिक उसका मतलब नहीं निकलता है तो इसकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है। इसलिए मैं 'निर्णय लिया' शब्द के चयन के खिलाफ हूं, जब एमपीसी के प्रस्ताव में दिशानिर्देश आते हैं।

जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक

वर्मा ने कहा, 'मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एमपीसी की विश्वसनीयता को तब चोट पहंचती है जब वह ऐसे शब्दों का उपयोग करती है जिसका अर्थ बाद में सटीक रूप से सामने नहीं आता। इसलिए एमपीसी के प्रस्ताव में जब तारीख आधारित

'निर्णय लिया गया' शब्द के चयन पर अपनी असहमति जताई।

बाहरी सदस्य ने और अधिक

लंबी अवधि के लिए दिशानिर्देश देने को प्रमुखता दी थी ताकि दीर्घावधि प्रतिफलों को काब में रखा जा सके। यह कंपनियों के लिए दीर्घावधि की उधारी की लागत को तय करने में महत्त्वपूर्ण घटक होता है। वर्मा

ने कहा, 'इच्छित परिणाम हासिल करने के लिए यह अनुवांछित है कि आगे का दिशानिर्देश एक वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए हो।'

ब्योरे से पता चलता है कि सदस्यों को बढती महंगाई को लेकर चिंता थी जिससे मजबूर होकर उन्होंने दरों में कोई कटौती

# `मालभाड़ा बढ़ने से खत्म हो सकता है 1 माह का निर्यात'

दिलाशा सेठ और अदिति दिवेकर

नई दिल्ली/मुंबई, 23 अक्टूबर

**निर्यातकों** को छुट्टियों के सीजन में ऑर्डर रद्द होने का डर है। उनका कहना है कि जुलाई के बाद से दुलाई लागत में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी और शिपिंग कंटेनर उपलब्ध न होने से निर्यात ऑर्डर परे करने में भारत अक्षम हो सकता है।

इस समय शिपमेंट में 20 दिन की देरी हो रही है। निर्यातकों के शीर्ष संगठन ने अनुमान लगाया है कि मौजूदा देरी से भारत का चालू वित्त वर्ष में करीब एक महीने का निर्यात खत्म हो सकता है। इसके अलावा भौतिक हस्तक्षेप खत्म करने के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा बगैर पहचान वाले आकलन का प्रावधान लागु करने से कंसाइनमेंट को हरी झंडी और देरी हो रही है।

आयात में तेज गिरावट की वजह से कंटेनर की कमी है। शिपिंग कंपनियां खाली जहाज वापस लाने को लेकर अनिच्छा जता रही हैं। कंटेनर की कमी की वजह से शिपिंग कंपनियों की माल ढुलाई लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है। निर्यात संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप कर इसके लिए एक नियामक निकाय बनाने की मांग की है।

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा, 'कंटेनरों की कमी की एक मुख्य वजह आयात में तेज गिरावट है। शिपिंग कंपनियों को खाली कंटेनर वापस लाना पड रहा है।' उन्होंने कहा, 'हमें पूरे साल में 20 दिन से ज्यादा के निर्यात का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो करीब 25 अरब डॉलर का है।'

अप्रैल-सितंबर के दौरान आयात में 40 प्रतिशत कमी आई है और निर्यात 26 प्रतिशत कम निर्यात में 6 महीने बाद 5.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आयात पिछले साल की तुलना में 19.6 प्रतिशत कम था।

20 फुट के कंटेनर का मालभाडा बढकर 1,200 डॉलर प्रति वेसेल हो गया है, जो कुछ महीने पहले की तुलना में 400 डॉलर ज्यादा है। निर्यातकों ने जहाजरानी महानिदेशालय से संपर्क साधा है। फियो ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की तर्ज पर नियामक एजेंसी बनाने का सझाव दिया है।

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन महेश देसाई ने कहा कि भारत के निर्यात के आंकडे कुछ प्रभावित हो सकते हैं। देसाई ने कहा, 'इससे भारत के निर्यात बाजार की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। अगर हम समय से ऑर्डर पूरे करने में सफल नहीं होते हैं तो हम अवसर गंवा देंगे। देसाई ने कहा कि उन्होंने यह

मसला वाणिज्य विभाग और जहाजरानी मंत्रालय के सामने रखा है। उन्होंने कहा, 'शिपिंग कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं है। भारत में चाइना ओसन शिपिंग कंपनी की तरह राष्ट्रीय शिपिंग की दिग्गज कंपनी भी नहीं है।'

यूरोप के प्रमुख बंदरगाहों का मालभाड़ा जहां 60 प्रतिशत तक बढ़ा है, लैटिन अमेरिका और अमेरिका का मालभाड़ा 50 प्रतिशत बढ गया है।

फेडरेशन आफ फ्रेट फारवर्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के चेयरमैन वी विजयकुमार ने कहा कि वह व्यवस्था के ऑटोमेशन और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी व आपत्ति की व्यवस्था बनाने की सिफारिश करेंगे।

आईएमसी चैंबर आफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर मार्क एस फर्नांडिस ने कहा कि पहचान रहित आकलन पेश किए जाने से बाद कंसाइनमेंट को मंजूरी मिलने में 15 दिन लगने लगे हैं, जो पहले हुआ है। सितंबर में भारत के 24 से 72 घंटे में हो जाता था।

# कार कंपनियों की नजर में 2 लाख केंद्रीय कर्मचारी

शैली सेठ मोहिले मुंबई, 23 अक्टूबर

कार निर्माता 2,00,000 से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर नजर बनाए हुए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में घोषित लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के लाभ मिलने वाला है। कंपनियों को उम्मीद है कि धन पाने वाले कर्मचारी कार खरीद सकते हैं।

देश में कार बनाने वाली प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के सेल्स व मार्केटिंग के कार्यकारी निदेशक शशांक श्रीवास्तव ने कहा, 'इस योजना के पात्र सभी कर्मचारी कार नहीं खरीदेंगे. लेकिन यह संभावित खरीदारों की तलाश का एक मौका है।

प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 'कैश करीब 2,20,000 कर्मचारी सामान

शामिल हैंं. जो कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं।' अगर राज्य सरकारें भी इस तरह की घोषणा करती हैं तो यह संख्या ज्यादा हो सकती है। खपत और व्यय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को इस तरह की योजना की घोषणा की है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के

खरीद सकते हैं। इसमें वे भी

सीनियर वाइस प्रेसीडेंट नवीन सोनी ने कहा. 'यह सबके लाभ के हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। यह (एलटीसी) खत्म हो जाता, क्योंकि मौजदा माहौल में कोई भी यात्रा करने से बच रहा है। सितंबर और मार्च में भी खरीद में तेजी देखी जा सकती है, जब निजी क्षेत्र के कर्मचारी मुल्यहास लाभ दावे के लिए कार खरीदेंगे।' अन्यथा वेतनभोगी कर्मचारी पंजीगत के लिए विशेष त्योहारी अग्रिम बिक्री में केंद्र सरकार के वस्तुओं की खरीद के लिए कर योजना (10,000 रुपये) की भी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 7-8 लाभ लेने के पात्र नहीं होते। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में वाउचर स्कीम का इस्तेमाल कर लोग बड़े सामान खरीदना चाहते हैं।


महामारी के बीच सीमित यात्रा के दौरान यह कदम उठाया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी किराये और छुट्टी के नकदीकरण का विकल्प मिला है। कर्मचारी के ग्रेड के मुताबिक यह लाभ 36,000 से 1,70,000 रुपये तक होगा। इसमें रेल या हवाईयात्रा की पात्रता और छुट्टियों के एवज में नकदी देना शामिल है।

योजना के मताबिक कर्मचारी यात्रा के अलावा किसी चीज पर खर्च कर सकते हैं और वस्तुएं व सेवाएं खरीदने के पात्र हैं और उन्हें लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल एलाउंसेज (एलटीसी/एलटीए) पर कर छूट मिलेगा। इसमें सिर्फ वे वस्तुएं शामिल हैं, जिनपर 12 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी लगता है। सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग बढ़ सके। इस तरह से योजना कार

खरीदारों के लिए मुफीद है।

# बीएस सूडोकू 3877

परिणाम संख्या 3876



उत्तर प्रदेश

2	9	3	7	6	4	5	8	1			
6	4	7	8	5	1	3	9	2			
1	5	8	3	2	9	7	6	4			
8	1	6	5	7	2	9	4	3			
5	2	4	9	1	3	8	7	6			
7	3	9	6	4	8	1	2	5			
4	7	1	2	9	5	6	3	8			
3	6	5	4	8	7	2	1	9			
9	8	2	1	3	6	4	5	7			
कैसे खेलें? बहुत आसा											

# हर, रो, कॉलम और 3

# **▶** क्षेत्रीय मंडियों के भाव

सराफाः दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना ७५ रूपये गिरकर 51,069 रुपये प्रति १० ग्राम रह गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,144 रुपये प्रति १० ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी की कीमत १२१ रूपये की तेजी के साथ 62,933 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले दिन बंद भाव ६२.८१२ रूपये प्रति किलो रहा था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सोने का भाव तेजी दर्शाता १,९०८ रूपये प्रति औंस था जबिक चांदी का भाव २४.७२ डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। बंद भाव रूपये प्रति क्विंटल ল্যবন্ত १६४०/१६५०, गेहूं शरबती गेहं दडा 2500/2600, चावल शरबती सेला 3400/3450, स्टीम 3900/4000,

लालमती २६००/२७००, चावल (सोना)

2300/2400, दाल अरहर सवा नं.

8300/8400, पटका 10000/10100, रिजेक्शन ७०००/७२००, चना दाल ६३००/ 6400, चना देशी छना 6000/6100, चना चापा छना ६१००/६२००, मटर विदेशी ७६००/७८००, उड़द साबुत (काला) 8800/10300, दाल उड़द (काली) 9000/ 11000, उड़द धोया 10000/11500, मसूर छोटी ७०००/७४००, मलका 6500/6700, किरानाः जीरा 14800/ 18200, लालिमर्च गुंदूर 17000/22000, हल्दी निजाम गर्ठा (५० किलो) 3600/4300, धनिया एमपी 7400/ 10500, छोटी इलायची (किलो) 1700/ 2100, बड़ी इलायची 450/560, कानपुर

गेहूं लूज 1650/1660. 1300/1320, चावल मसूरी 1900/2000, चावल मोटा १८५०/१९५०, देशी चना 5800/5900, चना छना 6000/6200, दाल चना 6300/6400, विदेशी मटर 8000/8300, पिचकी 5800/6000, मटर

दाल ७५००/८०००, अरहर लेमन ७१००/ 7125, दाल अरहर 9600/10100, स्पेशल ८६००/९१००,उड़द एसक्यू ९२५०/ ९३००, एफएक्य ८०५०/८१००, राजमा चित्रा 10000/10700, मूंग 6200/6400, मसूर छोटी 6200/6700, छांटी 6900/ ७४००, सरसों ५५००/५६००, तिल सफेद 8400/8500, सोया (टीन) 1900/1925, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2300/2350, सरसों खल 2400/2450. पामोलिन १९००/१९५०, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) १७६०/१८५०, मधुसूदन देशी घी 5800, वासुदेव 5300, अलसी ६५००/६६००, धनियाः लोकल ७९००/८१००, राजस्थान ८४००/८६००, बढिया 9800/10700, हल्दी 7200/ 8300, जीरा 14800/18000,

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल १०९७, बोल्ड क्रिस्टल (१२ नं.)११२७, फ्लैक १०८३, डीएमओ ८४८, टरपीन लैस बोल्ड ११४४

### मुजफ्फरनगर

हापड

गुड़ (४० किलो)ः लड्डू १०२५/११००, खुरपा ९५०/१०००,चाकू 980/1125, रसंकट 975/1020, शक्कर 1140/1160, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त)ः खतौली ३३४०, सिहोरा ३२२०, थाना भवन ३२४०, बुढ़ाना 3240, शामली 3200, चीनी हाजिर 3500/3550

पंजाब

अनाज-दालः गेहूं १७३५/१७४०, चावल परमल २१००/२२००, डुप्लीकेट बासमती सेला ३९००/४०००, बासमती ११२१ स्टीम 6100/6200, चना 5500/5550, चनादाल ६२००/६३००, काबली चना 7000/7500, राजमा देशी चित्रा 9500/10000, मटर दाल 6800/6900, दाल अरहर 9500/10000, मसूर 7000/7200, उड़द देसी 7800/7900, दाल उड़द 8500/9500, धोया 8500/

10000, मूंग यूपी 6700/6800,

के बाई 3 के बॉक्स में

एक से लेकर नौ

तक की संख्या भरें।

अतिरिक्त (प्रति क्विं.)ः राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)120, राइसब्रान (अखाद्य) ११८, खल सरसों 2500, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद ८५०, लाल ८५०, कंटीन्यूअस ८५०, सरसों (टन) २०५००, अनाजः गेहूं 1780/1785, आटा (50 किलो)1000, मैदा ११४०, चोकर (४९ किग्रा) ८२०, मक्की बिहार 1380/1400 लधियाना

दाल-दलहनः राजमां चित्रा 9800/ १०५००, अरहर दाल ९८००/११०००, उड़द साबुत ९३००/९८००, उड़द धोया 10000/11200, छिलका 9500/10000, दाल मसूर ७५००/८५००, चनादाल ६४००/६७००, एग्रो प्योर बेसन (३५ किग्रा.)2550, काबली चना 6300/7500, मूंग साबुत 6700/7000, मूंग धोया 7500/8500, चावलः डीबी 4600/4700, हल्दी 7100/8500,

### (Rajendra Kumar Agarwal) Managing Director & CEO DIN: 0001112